

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक नवम्बर 22, 2022

!! □ आज दिनांक 22.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

*1. “मिशन शक्ति अभियान” के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक ।

2. महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई ।

3. *यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-* जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 278 वाहनों का चालान तथा 32 बाहनो से 25500 रु० का शमन शुल्क वसूल किया गया ।

*4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी । तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

*5. *शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 36 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 19 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

*6. *पैदल गश्त अभियान-* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया।

जिम्मे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सगम हो सके ।

*7. *अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा अवैध शराब/ मादक पदार्थ/खदीदफरोक्त/ तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न थानों से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके उपर अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से 20 लीटर कच्ची, 15 शीशी देशी शराब व 50 शीशी नेपाली शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

*8. *विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 46 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

*9. *जनपद में 21/22.11.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 43 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।*

10.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा

!!जनपद महाराजगंज थानो द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

थाना सोनौली पुलिस द्वारा 08 बोरी यूरिया खाद व 02 अदद पुरानी साईकिल बरामद कर अभियुक्त प्रेमसागर पुत्र सुग्रीव नि0 रघुनाथपुर टोला भगवानपुर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किया गया।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा अभियुक्त मेंहदी हसन पुत्र तजमुल ग्राम सिहाभार थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

* थाना पनियरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण नुर मोहम्मद उर्फ नबी जनाऊल्लाह नि0 सतगुरु टोला खोरनहिया *सतीश यादव पुत्र हनिशंकर यादव नि0 सोहरौना तिवारी थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।